



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 53]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 31, 1979/माघ 11, 1900

No. 53]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 31, 1979/MAGHA 11, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रत्येक संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1979

क्र. आ. 60(अ).—पंजाब सरकार ने संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 की अनुसूची 18 में उल्लिखित निर्वाचन-क्षेत्रों के वर्णन में निर्दिष्ट कतिपय प्रादेशिक खण्डों की सीमाओं में कुछ परिवर्तन संसूचित हैं;

और, निर्वाचन आयोग, संसदीय और विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 का अद्यतन बनाए रखने के लिए उस आदेश की अनुसूची 18 में निर्वाचन-क्षेत्रों के विस्तार के वर्णन में संशोधन करना आवश्यक और समीचीन समझता है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग उक्त आदेश में यथा निम्नलिखित अधिशेष करता है :—

1. उक्त अनुसूची के भाग ख में—

(1) 14-बैक (अ. जा.) निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "अमृतसर तहसील में बैक कानूनगो सर्किल, अटारी कानूनगो सर्किल के 38-हीर और 39-बहाला भित्तवाड़ पट्टार सर्किल, अमृतसर कानूनगो सर्किल का

45-दुंगा परान पट्टार सर्किल और तरीसका कानूनगो सर्किल के 71-छात्रलवाड़ी, 78-बैहरीयाला, 79-जम्बावाल, 80-मालोवाल, 81-लोला और 82-तरीसका पट्टार सर्किल" प्रविष्टियां रखी जाएंगी।

(2) 15-जन्डियाला (अ.जा.) निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "अमृतसर तहसील में जन्डियाला कानूनगो सर्किल, अटारी कानूनगो सर्किल के 54-बसेरके और 55-संधाना पट्टार सर्किल और अमृतसर कानूनगो सर्किल के 46 से 48-मलतानीबंड और 53-फतहपुर पट्टार सर्किल" प्रविष्टियां रखी जाएंगी।

(3) 17-अमृतसर पश्चिम निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में, "बैक कानूनगो सर्किल के" शब्दों के स्थान पर "अटारी कानूनगो सर्किल के" शब्द रखे जाएंगे।

(4) 22-अटारी (अ. जा.), निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "अमृतसर तहसील में अटारी कानूनगो सर्किल (38-हीर, 39-बहाला भित्तवाड़, 40-गुमान-पुरा, 41-बक मुकन्द, 54-बसेरके और 55-संधाना पट्टार सर्किलों को छोड़कर)" और तब तब तहसील में कौनों कानूनगो सर्किल के 65-गरगा बुआ, 67-मुसे, 68-पादरी, 69-शेख, 70-मालोवाल, 71-जैओ-बाला, 72-बाकीपुर, 73-वालीपुर, 74-मानो चहल और 83-रूड़े असल पट्टार सर्किल और भबल कलां कानूनगो सर्किल (37-पंडोरी रण सिंह, 38-लाल, गुमान, 40-कोट धर्म चन्द कलां, 41-भाबल कलां, 42-भबल मानान और 43-ठाठ गढ़ पट्टार सर्किलों को छोड़कर)" प्रविष्टि रखी जाएंगी।

(5) 23-तारन तारन, निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार के वर्णन में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, "तारन तारन तहसील में तारन तारन कानूनगो सर्किल और भबल कलां कानूनगो सर्किल के 37-पंडोरी रण सिंह, 38-लालु घुमान, 40-कांट धर्म चन्द कलां, 41-भबल कलां, 42-भबल मानान और 43-ठाठ गढ़ और कौरों कानूनगो सर्किल का 66-पंजवार पटवार सर्किल" प्रविष्टियां रखी जाएंगी।

2. अनुसूची के अन्त में विद्यमान टिप्पणी के स्थान पर, "इस सारणी में किसी जिले, तहसील, कानूनगो सर्किल, पटवार सर्किल, वार्ड या अन्य प्रादेशिक खण्ड के किसी संदर्भ का उस क्षेत्र से अभिप्राय होगा जो उस जिले, तहसील, कानूनगो सर्किल, पटवार सर्किल, वार्ड या अन्य प्रादेशिक खण्ड के अन्तर्गत 1977 के अगस्त मास के प्रथम दिन को सम्मिलित था।

परन्तु—

(1) पटियाला नगर निगम के किसी वार्ड के संदर्भ का उस क्षेत्र से अभिप्राय होगा जो कि उस वार्ड के 1975 के अप्रैल मास के प्रथम दिन को सम्बद्ध वार्ड में सम्मिलित था ;

(2) लुधियाना, जालन्धर और अमृतसर नगर पालिकाओं की सीमाओं के संदर्भ का अभिप्राय 1975 के सितम्बर, मास के प्रथम दिन को उनकी सीमाओं से है ; और

(3) संगरूर जिले में 84-भादौर (अ.जा.) और 85-धानाँला सभा निर्वाचन-क्षेत्रों और भटिण्डा जिले में 113-रामपुरा फुल सभा निर्वाचन-क्षेत्र की प्रशासनिक इकाइयों के संदर्भ का उस क्षेत्र से अभिप्राय होगा जो 1976 के फरवरी मास के प्रथम दिन को सम्बद्ध इकाइयों में सम्मिलित था"।

[सं. 282/1/पंजाब/78]

आदेश से,

वी. नागसुब्रमण्यन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 1979

S.O. 60(E).—Whereas the Government of Punjab have intimated some alterations in the boundaries of certain territorial divisions referred to in the description of constituencies given in Schedule XVIII of the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976;

And whereas the Commission considers it necessary and expedient to make amendments in the description of the extent of constituencies in the Schedule XVIII of the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies Order, 1976, to bring the Order up-to-date;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 of the Representation of the

People Act, 1950, the Election Commission hereby makes the corrections in the said Order as follows :—

I. In Part B of the Schedule—

- (1) In 14-Verka (SC), in the description of the extent of the Constituency, for the existing entries *substitute* the entries "Verka K. C., P.Cs. 38-Heir and 39-Wadala Bhite Wadh in Attari K.C., P.C. 45-Fung Pian in Amritsar K.C. and P.Cs. 74-Chhajalwadi 78-Dehriwala, 79-Jabbowal, 80-Malowal, 81-Lola, and 82-Tarsikka in Tarsikka K. C. in Amritsar Tahsil."
- (2) In 15-Jandiala (SC), in the description of the extent of the constituency, for the existing entries, *substitute* the entries "Jandiala K.C. P.Cs. 54-Baserke and 55-Sanghana in Attari K. C. and P.Cs. 46 to 48 Sultanwind and 53-Fatehpur in Amritsar K.C. in Amritsar Tahsil."
- (3) In 17-Amritsar West, in the description of the extent of the constituency, for the words "in Verka K.C." *substitute* the words "in Attari K.C."
- (4) In 22-Attari (SC), in the description of the extent of the constituency, for the existing entries, *substitute* the entries "Attari K.C. (excluding P.Cs. 38-Heir, 39-Wadala Bhite Wadh 40-Gumanpura, 41-Chak Mukand, 54-Baserke and 55-Sanghana) in Amritsar Tahsil and P.Cs. 65-Gaggo Bua, 67-Muse, 68-Padri, 69-Sheikh, 70-Malowal, 71-Jeobala, 72-Bakipur, 73-Walipur, 74-Mano Chahal and 83-Rure Asal in Kairon K.C. and Jhal Kalar K.C. (excluding P.Cs. 37-Pandori Ran Singh, 38-Lalu Ghuman, 40-Kot Dharam Chand Kalan, 41-Jhabal Kalan, 42-Jhabal Manan and 43-Thath Garh) in Tarn Taran Tahsil."
- (5) 23-Tarn Taran, in the description of the extent of the constituency, for the existing entries, *substitute* the entries "Tarn Taran K.C. and P.Cs. 37-Pandori Ram Singh, 38-Lalu Ghuman, 40-Kot Dharam Chand Kalan, 41-Jhabal Kalan, 42-Jhabal Manan and 43-Thath Garh in Jhabal Kalan K.C. and P.C. 66-Panjwar in Kairon K.C. in Tarn Taran Tehsil."

II. For the existing Note at the end of the Schedule *substitute* the Note "Any reference in this Part to a district, tahsil, Kanungo Circle (KC), Patwar Circle (PC), Ward or other territorial division shall be taken to mean the area comprised within that district, tahsil, Kanungo Circle (KC), Patwar Circle (PC), Ward or other territorial division on the 1st day of August, 1977, except that the reference to (i) Ward in Patiala Municipal Corporation shall be taken to mean the area comprised within the respective ward on the 1st day of April, 1975; (ii) the limits of Luchiana, Jullundur and Amritsar Municipalities to mean the limits as on the 1st day of September, 1975, and (iii) administrative units in 84-Bhadaur (SC) and 85-Dhanaula assembly constituency in Sangrur district and 113-Rampura Phul assembly constituency in Bhatinda district shall be taken to mean the area comprised within the respective units as on the 1st February, 1976."

[No. 282/1/PB/Z@]

By order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.